



27th May, 2026

<p>To, BSE Limited Listing Department 25th Floor, P J Towers, Dalal Street Mumbai -400001 Stock Code. 500456</p>	<p>To, Manager – Listing Compliances National Stock Exchange Of India Ltd. Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400051 Stock Code: PASUPTAC</p>
--	--

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Published Audited Financial Results for the period ended 31.03.2026

Please find enclosed herewith copies of newspaper clippings of Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) dated 27th May, 2026 in respect of publication of Extract of Audited Financial Results for the quarter & year ended 31st March, 2026 in compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Pasupati Acrylon Limited

Bharat Kapoor

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. A54267

Encl: as above

PASUPATI ACRYLON LIMITED

CORPORATE OFFICE: M-14, CONNAUGHT CIRCUS, MIDDLE CIRCLE, NEW DELHI – 110001 (INDIA)

Tel: EPABX - 91-11-47627400; Email: secretarial@pasupatiacrylon.com; Website: www.pasupatiacrylon.com

REGD. OFFICE & WORKS: KASHIPUR ROAD, THAKURDWARA, DIST. MORADABAD (U.P.) – 244601

Email: works@pasupatiacrylon.com; CIN: L50102UP1982PLC015532

PASUPATI ACRYLON LIMITED
 CIN: L5102UP1982PLC015532
 Regd. Office: Kashipur Road, Thakurdwara, Distt. Moradabad (U.P.)
 Corp. Office: M-14, Connaught Circus (Middle Circle), New Delhi-110 001
 Tel. No.: 91-11-47627400, Fax No.: 91-11-47627497
 E-mail: secretarial@pasupatiacrylon.com, Website: www.pasupatiacrylon.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2026		31.03.2025	31.03.2025	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from operations	246.94	271.55	172.01	1018.83	632.80
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	35.88	34.89	15.25	94.93	47.72
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	35.88	34.32	15.25	94.36	47.72
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	26.28	25.69	11.27	69.92	35.38
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	27.66	25.69	11.34	71.29	35.37
6.	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-)	89.13	89.13	89.13	89.13	89.13
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	346.29	275.01
8.	Earnings Per Share (Rs.10 each)	2.95	2.88	1.26	7.84	3.97
	Diluted:	2.95	2.88	1.26	7.84	3.97

NOTE: The above is an extract of the detailed format of quarterly and annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Financial Results are available on the Company's Website (www.pasupatiacrylon.com) and the websites of the stock exchanges - BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

for Pasupati Acrylon Ltd. (Sd/-)
 Vineet Jain
 Managing Director

Place: New Delhi
 Date: 25th May, 2026

MAYUR FLOORINGS LIMITED
 CIN: L99999RJ1992PLC099640
 Regd Off: Plot No. 5 & 6 (A), Road No. 4, Dahod Road, Industrial Area, Banswara, Rajasthan- 327001
 E-Mail: mayurflooringslimited@rediffmail.com; Website: www.mayurflooringslimited.com

Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended As On 31.03.2026 (Rs In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year Ended		
		31.03.2026		31.03.2025		
		Audited	Un-Audited	Audited	Audited	
1.	Net Sales/ Total Income from operations	252.62	245.47	144.4	884.02	630.18
2.	Net Profit/ Loss from ordinary activities after finance cost but before exceptional items	9.17	6.58	3.44	20.38	11.68
3.	Net Profit for the period before tax (After exceptional items)	9.17	6.58	-135.93	20.38	11.68
4.	Net Profit after tax and after exceptional items	8.87	6.28	-138.24	14.69	-130.00
5.	Paid-up equity and capital	507.12	507.12	507.12	507.12	507.12
6.	Basic and diluted EPS after Extraordinary items for the period	0.18	0.13	-2.57	0.29	-2.57

1. The above Financial Results were taken on record and approved in the meeting held on 25/05/2026 after review by Audit Committee.
 2. Previous period figures were regrouped, wherever necessary.
 3. Since more than 90% revenue of the Company comes from single segment, segment reporting has not been given. 4. The aforesaid results have been filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and are also available on the website of the Stock Exchange and the company.

Place: Banswara
 Date: 25.05.2026

For and on behalf of the Board of Directors (Sd/-)
 Mahavir N Sundarwat
 Managing Director (DIN: 01928303)

PUBLIC NOTICE FORM C

[Under rule 9(1) of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. AKASH GOYAL (PERSONAL GUARANTOR OF M/S. AZAD IMPEX PRIVATE LIMITED)

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-II, has ordered the commencement of a Bankruptcy Process against Mr. Akash Goyal residing at 450, First Floor, Deepali, Pitampura, Delhi-110034 and also at Gandhidham, Gujarat on 22.05.2026

The creditors of Mr. Akash Goyal, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 03.06.2026 to the Bankruptcy Trustee at **Mavent Restructuring Services LLP, S-376, Block S, Panchsheel Park, New Delhi, Delhi - 110017.**

The last date for submission of claims of creditors shall be 03.06.2026. The creditors may submit their claims through electronic means, or by hand or registered post or speed post or courier.

Additional details of the bankruptcy trustee:

ADDITIONAL DETAILS OF THE BANKRUPTCY TRUSTEE

1. Name and IBBI registration number of the bankruptcy trustee	Mr. Roshan Lal Jain, IBBI/PA-001/PP-P00966/2017-18/11587, AFA Valid till 31/03/2026
2. Registered Address, email ID and Phone no. of the bankruptcy trustee as registered with IBBI	Address: AN-46 B, Shalimar Bagh, North West Delhi, Delhi-110088. Email: roshanlajain@yahoo.co.uk, Phone No: 9818398959.
3. Communication Address, Email ID and Phone No. to be used for correspondence with the bankruptcy trustee	Communication Address: Mavent Restructuring Services LLP, S 376, Block S, Panchsheel Park, New Delhi-110017. Email: bp.akashgoyal@gmail.com, Phone No: 9910197705.

Note: Submission of false or misleading claims with proof shall attract penalties or imprisonment in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable laws

(Sd/-)
Roshan Lal Jain
 Resolution Professional
 Bankruptcy Trustee of Mr. Akash Goyal
 (Personal Guarantor of Azad ImpeX Private Limited)
 IBBI/PA-001/PP-P00966/2017-18/11587
 Date: 27-05-2026
 Place: Delhi
 AFA Valid upto: 31.12.2026

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED
 Regd. Office: Unit No 2075, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao Delhi 110006
 CIN: L51909DL1985PLC020372, Ph: 011-41539140
 E-mail ID: limitedatlantic@gmail.com, Website: www.atlantic-commercial.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026 (Rs./Lakh)

Sl.	Particulars	Quarter Ended			Year ended on	
		31.03.2026		31.03.2025	31.03.2025	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1.	Total income from operations	8.40	6.05	20.52	29.78	30.96
2.	Net Profit/(Loss) for the year (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2.04	1.12	14.00	8.41	12.02
3.	Net Profit / (Loss) for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.04	1.12	14.00	8.41	12.02
4.	Net Profit / (Loss) for the year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.97	(0.50)	11.19	2.86	5.67
5.	Total Comprehensive Income for the year (Comprising Profit / (Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	0.97	(0.50)	11.44	2.86	5.67
6.	Equity Share Capital	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	332.78	329.91
8.	Earnings per share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	1. Basic (in ₹):	0.13	(0.07)	1.55	0.39	0.77
	2. Diluted (in ₹):	0.13	(0.07)	1.55	0.39	0.77

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2026 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2026 are available on the websites of the Stock Exchange (www.mseil.in) and on the company's website (www.atlantic-commercial.com).

For Atlantic Commercial Company Limited (Sd/-)
 Sumant Bharat Ram
 Chairman
 DIN: 00052833

Place: New Delhi
 Date: 26.05.2026

DCB Bank Limited.
 Registered Office: 6th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

You the below mentioned borrower(s), co-borrower(s) have availed loan(s)/facility(ies) from DCB Bank Limited by mortgaging your immovable properties (securities). Consequently, your defaults upon loans were classified as non-performing assets. DCB Bank Limited For the recovery of the outstanding dues, issued demand notice under Section 13(2) of the Securitization And Reconstruction Of Financial Asset And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (the Act), the contents of which are being published herewith as per Section 13(2) of the Act read with rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of service upon you. Details of the borrowers, co-borrowers, properties mortgaged, outstanding dues, demand notice sent under Section 13(2) and amount claimed there under are given as under:

Sr. No.	Name and address of the Borrower, Co-Borrower/Guarantor, Loan Account No., Loan Amount	Secured property address	1 Demand notice date 2 Outstanding dues 3 NPA Date
1.	1. MR. ANIL KUMAR, 2. MRS. RAJ BALA. All Address At- HOUSE NO.20 WARD NO.13 NEAR AUTO MARKET SIWANI BHIWANI HARYANA 127046 Loan Account Number- DRHLHS00573454/ DRBLHIS00573500 Loan Amount Sanctioned: Rs.37,00,000/-	All The Piece And Parcel Of Property Having Measuring Area 0 Kanal 6.5 Marala 1. E 197 Sq. Yards Khewat No. 693, Khatoni No. 964, Kita No. 1 Situated At Village Vaka Rakha Mouja Siwani Pana Padmal, Ward No. 13, Sherpura, Teshil Siwani, District Bhiwani, Which Is Bounded Under East: Road, West: North: Property Of/O, Ojia W/o Ashok Kumar, South: Property Of Silochana W/o Ashok Kumar	1) 08-05-2026 2) Rs.35,07,534/- (Rupees Thirty Five Lakh Seven Thousand Five Hundred Thirty Four Only) as on 08-05-2026 3) NPA Date - 05-05-2026
2.	1. MR. RAMESH KUMAR, 2. MRS. BHAGWATI. All Address At- 2960 SINGH PURA COLONY BARARA AMBALA BARARA HARYANA 133201 Loan Account Number- DRBLPUC00460224 Loan Amount Sanctioned: Rs.10,70,000/-	ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY HAVING MEASURING AREA 7 MARLAS KHEWAT NO. 2368, KHATONI NO. 2841, KHASRA NO. 110/162/2/112, 162/1/1/3 SITUATED AT VILLAGE BARARA, HADOBAST NO. 203, TESHIL BARARA, DISTRICT AMBALA, WHICH IS BOUNDED UNDER EAST: 5'10" BHUJA, WEST: 5'10" BHUJA, NORTH: 35' 10" LANE, SOUTH: 35' 10" LANE	1) 08-05-2026 2) Rs.12,80,637.16 (Rupees Twelve Lakh Eighty Thousand Six Hundred Thirty Seven and Sixteen Paise Only) as on 08-05-2026 3) NPA Date - 05-05-2026

You the borrower/s and co-borrowers/guarantors are therefore called upon to make payment of the above mentioned demanded amount with further interest as mentioned hereinabove in full within 60 days of this notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above-mentioned securities. Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act by virtue of which you are at liberty to redeem the secured asset within period stipulated in the aforesaid provision. Please note that as per section 13(1) of the said act, you are restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent.

Date: 27.05.2026
 Place: Bhiwani, Ambala

(Sd/)
 Authorized Officer,
 DCB Bank Limited

NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED
 Regd. Off: 51404134 CHAUDHARY MARKET GALI PETI WALL RUI MANDI, SADAR BAZAR, DELHI-110006
 Corporate Office: 19, G.T. ROAD, CHAUDHARY CINEMA BUILDING, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201001, Email ID: nirajispatisindustries@gmail.com, Website: www.nirajispatis.com
 Phone No.: 011-23551821, 011-64561675

Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31.03.2026 (Lacs)

Particulars	Quarter Ended		Year to date		Corresponding Months Ended in the previous year (Audited)	Previous Year Ended (Audited)
	31.03.2026		31.03.2026			
	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited		
1. Total Income from Operations	127.69	508.21	127.14	477.88		
2. Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	53.81	219.73	50.98	178.35		
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	53.81	219.73	50.98	178.35		
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	38.97	162.44	29.98	133.57		
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	38.97	162.44	29.98	133.57		
6. Equity Share Capital	60.00	60.00	60.00	60.00		
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	1,533.00	-	1,370.56		
8. Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic (in ₹):	6.50	27.07	5.00	22.26		
2. Diluted (in ₹):	6.50	27.07	5.00	22.26		

Note: The above Financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 25th May, 2026.
 2. The financial results for the year ended March 31, 2026 have been audited by the Statutory Auditors of the Company. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion.
 3. These results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prepared under Section 133 of Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment thereunder.
 4. The Company is in the business of manufacturing of poly butylenes and hence has only one reportable operating segment as per Ind AS-108-Operating Segment.
 5. The figures for the quarter ended March 31, 2026 and March 31, 2025 represent the difference between the audited figures in respect of full financial year and the unaudited published figures of the nine months ended December 31, 2025 and December 31, 2024.
 6. Previous period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

For Niraj Ispat Industries Limited (Sd/-)
 CHAITANYA CHAUDHRY
 Designation: Director and CEO
 DIN: 06813394

Date: 27.05.2026
 Place: Delhi

HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED
 Corporate Office: No 27/A, Developed Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600 032
 Branch Office: A-35, UGF, FIEE Complex, Near C Lal Chowk, Okhla Industrial Area, Phase-2, New Delhi-110020

SARFAESI Demand Notice Paper Publication for unserved notices

A notice is hereby given that the following borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the secured creditor and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). The notice was issued to them under Section 13(2) of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however the same have returned un-served and as such they are hereby informed by way of public notice about the same.

Sr No.	Name & Address of Borrower(s) & Co-Borrower(s)	Loan Account Number Amount Outstanding Demand Notice Dated
1.	1. M/S J J Tradelinks Pvt. Ltd. (Through Its Director Mr. Joydeep Nayar) (Borrower), R/O A-70, Sector-58, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP- 201301 2. Mr. Joydeep Nayar/S/o Sh. Madanlal Nayar (Co-Borrower) 3. Mrs. Vandana Nayar/W/o Mr. Joydeep Nayar (Co-Borrower) Sr. No. 2 & 3 R/O F -PH 2, Pearl Gateway Tower, Sector 44, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201301 4. Mr. Tanveerul Hasan S/o Maqsood Hasan (Co-Borrower), R/O H 1/C 40, 2nd Floor, Bishanpura, Sector 58, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201301 Also At; Near Kiran Collage, Chauraha Katra, Banda, UP-210001	Loan A/c No. DHDLCE000184 Outstanding Amount Rs. 5,22,27,328.28/- as on 20-05-2026 Demand Notice Dated 25-05-2026

Annexure "A" (Particulars of Secured Property)

SCHEDULE OF SECURED PROPERTY: As described in the Loan document / property document Unit No. F-PH2, 8th and 9th Floor, "Pearls Gateway Towers" on Plot No.- 8 A, Tower F, Block-D, Sector-44, Noida, District Gautam Budh Nagar, UP-201301 (ADMEASURING 5335.00 Sq Ft) in the name of Mr. JOYDEEP NAYAR & Mrs. VANDANA NAYAR. **Direction Four Boundaries:** North - East : Lift, South - East: Entry / Flat No. 801, South - West: Staircase, North - West: Open

The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrower's and/or their guarantors are advised to make the payments of outstanding within period of 60 days from the date of publication of this notice failing which, further steps will be taken after the expiry of 60 days from the date of publication of this notice as per the provisions of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

Date: 27.05.2026
 Place: Uttar Pradesh

Authorised Officer
 Hinduja Leyland Finance Limited

MEGA NIRMAN & INDUSTRIES LIMITED
 CIN: L43219DL1983PLC015425
 Regd. Off.: 811-812, Aggarwal Cyber Plaza-1, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi-110034
 Contact No.: 011-43599177, E-mail: secretarial.mnil@gmail.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026 (Amount in Lakhs except EPS)

PARTICULARS	Quarter Ended		Quarter Ended		Year Ended	
	March 31, 2026		December 31, 2025		31st March, 2026	
	Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Total income from operations	346.64	666.52	221.35	1555.65	782.50	
Net Profit / (Loss) for the period (before Exceptional & Extraordinary items & Tax)	34.96	39.23	0.47	47.07	7.08	
Net Profit / (Loss) for the period (after tax & Minority Interest & share of profit/loss of associates)	26.27	36.08	0.47	35.23	5.29	
Total comprehensive income for the period	26.27	36.08	0.47	35.23	5.29	
Equity Share Capital	2564.75	2564.75	334.75	2564.75	334.75	
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic (Rs.)	0.10	0.14	0.01	0.14	0.16	
2. Diluted (Rs.)						

Note: 1. The Audited Financial Results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.
 2. The Above Audited Financial Results reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at their Meeting held on May 25, 2026.
 3. The Company does not have any Exceptional or Extraordinary items to report for the above period.
 4. The Previous period's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary to make them comparable. The figures for the Quarter ended 31st March, 2026/2025 are balancing figures between the Audited figures of full year and reviewed figures upto 31st December, 2025.
 5. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/2/2016 dated July 5, 2016. The full form of the Quarterly and year ended financial results are available on the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.mnil.in. the same can be accessed by scanning the QR code provided below:

For & On behalf of
 Mega Nirman & Industries Limited (Sd/-)
 Ramanuj Murlinarayan Darak
 (Whole time Director)
 DIN: 08647406

Date: 25.05.2026
 Place: New Delhi

Hinduja Housing Finance Ltd.
 Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015, and Branch Office: at F8, first floor, Mahalaxmi Tower, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad-201010
 Email: auction@hindujahousingfinance.com

CLM - Priya Sharma - 8218291278 | **RRM - Amit Kaushik - 9587088333**
RLM - Arun Mohan Sharma - 8800898999 | **CRM - Amrendra Prasad - 73035 58092**

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT)

In respect of loans availed by below mentioned borrowers / guarantors through HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED, which have become NPA with below mentioned balance outstanding on dates mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned under Section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Registered Post / Speed Post / Courier with acknowledgement due to you which has been returned undelivered / acknowledgment not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on one of you as per Sec. 13(4) of the Act in case of your failure to pay the amount mentioned below within 60 days in the event of your not discharging liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of SARFAESI Act while publishing the possession notice / auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the Bank / Secured Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder:-

Sr.	LAN No./Borrower's/Co-Borrower's / Guarantor's	Demand Notice Date & Amount
1.	D/LD/DEL/DLH/A00001080, Mr. Shive Panjoli, H No 117, Arhala Mohan Nagar, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201007, Mrs. Janki Panjoli, Mr. Jashan Raj Panjoli, D70711, Nandgram Ghaziabad, Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001	15-04-2026 & Rs. 1288314/- as on 19-03-2026 NPA Date: 05-03-2026
2.	D/LD/DEL/DLH/A000003144, Mr. Vinay Pal, Mrs. Pushpa Pal, Mr. Chetanwaroop Pal, House No 482 Gali No 5, Sewa Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201001	15-04-2026 & Rs. 2861460/- as on 19-03-2026 NPA Date: 05-03-2026
3.	D/LD/DEL/DLH/A000001588, Mr. Shahnavd Shahnavd, Mrs. Nasima Begum, H No 192 Block B, Kamna Vaishali Sector-4, Kamna Vaishali Sector - 1, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201010	15-04-2026 & Rs. 1222846/- as on 19-03-2026 NPA Date: 05-03-2026
4.	D/LD/DEL/DLH/A000002238, Mr. Vikas Kumar, Mrs. Ruby Panwar, House No 3106, Block 3, Rajinder Nagar, Sector 5, Sahibabad, Near Mother Dairy, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201005	15-04-2026 & Rs. 3168381/- as on 19-03-2026 NPA Date: 05-03-2026
5.	D/LB/PR/ASHO/A000000495, Mr. ASHISH GAUR, Mrs. SHEELU GAUR, HOUSE NO 118, NEW LAHORE COLONY, SHASTRI NAGAR GANDHI NAGAR, NEW LAHORE CANTONMENT, EAST DELHI, Delhi, India - 110031	15-04-2026 & Rs. 1315545/- as on 19-03-2026 NPA Date: 05-03-2026
6.	D/LB/PR/ASHO/A000000356, Mr. Indereet Singh, Mrs. Mansi Bedi, G 22 Gali No 7 Pappu Colony, Sector, Ghaziabad, Metro, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India - 201005	15-04-2026 & Rs. 1398430/- as on 19-03-2026 NPA Date: 05-03-2026
7.	D/LB/PR/JHAH/A000000439, Mr. PANKAJ KUMAR, Mrs. DOLLY DOLLY, 486A/6, SHAHDARA, Rural, DELHI, Delhi, India - 110032	15-04-2026 & Rs. 3892753/- as on 19-03-2026 NPA Date: 05-03-2026

Description of Property: Plot No. 1190-B (E.W.S) on 2nd Floor without roof rights area measuring 28.

ऋण वसूली अधिकरण - II,
दिल्ली के समक्ष चौथी मंजिल, जीवन तारा
पब्लिसिटी स्ट्रीट, नई दिल्ली - 110001

बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऋण ऋणों की वसूली
अभियान, 1993 की धारा 19(4) के तहत, जिसे ऋण
वसूली अधिनियम (प्रक्रिया नियम), 1993 के नियम 12
और 13 के साथ पढ़ा जाए, निम्नलिखित मामले में
नोटिस।

OA संख्या 165/2024 दिनांक: 20.05.2026
भारतीय स्टेट बैंक ...आयदक
बनाम
मेसर्स अणिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ...प्रतिवादी
सेवा में,
प्रतिवादी (DEFENDANT)

D1. अणिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अपने प्रोप्राइटर
श्रीमती अणिका पत्नी श्री वीर बहादुर के माध्यम से
30 / 1 ईस्ट पटेल मार्ग, दिल्ली-08
बुकिंग उपर नामित आवेदक ने आधे विवर
58,84,657/- रुपये (अठान लाख चौरास
हजार छह सौ सत्तान रुपये मात्र) की वसूली के
लिए एक मामला दायर किया है, और बुकिंग
डिस्ट्रिब्यूशन को यह संबंधित रूप से दिखाया गया
है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस देना संभव
नहीं है, इसलिए यह नोटिस विज्ञापन के माध्यम से
दिया जा रहा है, जिसमें आपको 30.09.2026 को
सुबह 11:00 बजे डिस्ट्रिब्यूशन में उपस्थित होने का
निर्देश दिया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उक्त विधि पर उपस्थित
नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई और निष्पत्ती
अनुपस्थिति में ही किया जाएगा।

सभी मामलों को सुनवाई की प्रक्रिया में
सभी मामलों को सुनवाई की प्रक्रिया में
सभी मामलों को सुनवाई की प्रक्रिया में

(i) सभी अधिकार/वाचकरी 'Cisco Webex'
एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने
(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा
सूची वाले मामले की सुनवाई की तारीख के
लिए 'मोडिंग ID' और पासवर्ड, DRT के
आधिकारिक पोर्टल (drt.gov.in) पर उपलब्ध
दैनिक कार्य-सूची (Cause List) में ही प्रदर्शित
किया जाएगा।

(iii) किसी भी आपात स्थिति में, अणिका/वाचकरी
संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 23748478 पर संपर्क
कर सकते हैं।
मेरे हस्ताक्षर और डिस्ट्रिब्यूशन की मुहर के अधीन, आज
दिनांक 20 मई, 2026 को जारी।

दिग्गुण के आदेश से,
अणुगण अधिकारी, DRT-II, दिल्ली

ORIENT BELL LIMITED
CIN: L14101UP1977PLC021546
Regd. Off.- 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U.P.
Corp. Off.- Iris House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi - 110046
Tel.- +91-11-47119100, Email Id: investor@orientbell.com
Website: www.orientbell.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND

This notice is being issued in terms of the provisions of the Companies Act, 2013 read with the IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016, as notified by the Ministry of Corporate Affairs, New Delhi and as amended from time to time ("the Rules").

The Rules, inter-alia, provides for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years, to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") set up by the Central Government.

In terms of the Rules, individual communication have been sent to those shareholders at their latest available addresses in respect of whom the dividend is unpaid/unclaimed since FY 2018-19 and thus their shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules. The Company has updated full details of such shareholders along with their respective shareholding due for transfer to IEPF on its website at www.orientbell.com.

In view of the above, all such shareholders are requested to make an application to the Company's Registrar by 27.08.2026, for claiming the unpaid dividend for the year 2018-19 onwards otherwise the Company will be compelled to transfer the underlying shares to IEPF, without any further notice, by following the due process as enumerated in the said Rules.

Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares will be transferred to IEPF.

All shareholders are requested to note the above provisions and claim all unpaid dividends immediately.

It may also be noted that as per Rules, the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the said Rules.

For any further queries on the subject matter, shareholders may contact Company's Registrar and Share Transfer Agent at MCS Share Transfer Agent Limited at 179-180, 3rd Floor, DSICD Sheds, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi- 110020, Ph. No. 011-41406149, Email: admin@mcsregistrars.com, Website: www.mcsregistrars.com.

For Orient Bell Limited
Sd/-
Yogesh Mendiratta
Company Secretary & Legal

New Delhi
May 26, 2026

ऋण वसूली अधिकरण - II,
दिल्ली के समक्ष चौथी मंजिल, जीवन तारा
पब्लिसिटी स्ट्रीट, नई दिल्ली - 110001

बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऋण ऋणों की वसूली
अभियान, 1993 की धारा 19(4) के तहत, जिसे ऋण
वसूली अधिनियम (प्रक्रिया नियम), 1993 के नियम 12
और 13 के साथ पढ़ा जाए, निम्नलिखित मामले में
नोटिस।

OA संख्या 166/2024 दिनांक: 20.05.2026
भारतीय स्टेट बैंक ...आयदक
बनाम
M/S मोबाइल टेकनोलॉजी ...प्रतिवादी
कंपनी

सेवा में,
प्रतिवादी

M/S मोबाइल टेकनोलॉजी कंपनी, प्रोप्राइटर श्री
दुखानंद सिंह, पुत्र सरदार सिंह के माध्यम से
8835, दूसरी मंजिल, फिरोज स्ट्रीट, गीताला
मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली - 06
इसके अलावा: दुकान संख्या 26, भूला, साउथ
एक्सटेंशन पार्क-1, नई दिल्ली पर भी।

बुकिंग उपर नामित आवेदक ने आधे विवर
53,41,704/- रुपये (केवल लाख
हजारतीस हजार सात सौ चार रुपये) की वसूली के
लिए एक मामला दायर किया है, और बुकिंग
अधिकरण को यह संबंधित रूप से दिखाया गया है
कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस तामील करना
संभव नहीं है, इसलिए यह नोटिस विज्ञापन के माध्यम से
दिया जा रहा है, जिसमें आपको दिनांक 30.09.
2026 को सुबह 11:00 बजे डिस्ट्रिब्यूशन के समक्ष
उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उपर्युक्त निर्देशित दिन पर
उपस्थित नहीं होते हैं, तो इस मामले की सुनवाई और
निष्पत्ती अनुपस्थिति में ही किया जाएगा।

सभी मामलों पर सुनवाई की प्रक्रिया में
सभी मामलों पर सुनवाई की प्रक्रिया में
सभी मामलों पर सुनवाई की प्रक्रिया में

(i) सभी अधिकार/वाचकरी को 'Cisco Webex'
एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने
(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा
सूची वाले मामले की सुनवाई की तारीख के
लिए 'मोडिंग ID' और पासवर्ड, DRT के
आधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर उपलब्ध
दैनिक कार्य-सूची (Cause List) में ही प्रदर्शित
किया जाएगा।

(iii) किसी भी आपात स्थिति में, अणिका/वाचकरी
संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 23748478 पर संपर्क
कर सकते हैं।
मेरे हस्ताक्षर और डिस्ट्रिब्यूशन की मुहर के अधीन, आज
दिनांक 20 मई, 2026 को जारी किया गया।

दिग्गुण के आदेश से,
अणुगण अधिकारी, DRT-II, दिल्ली

ADVERTISEMENT FOR TENDER OF REGIMENTAL SHOPS OF AIR FORCE STATION NEW DELHI

1. Air Officer Commanding Air Force Station, New Delhi-110003 invites sealed tenders from War Widows/Widows of Defence personnel killed while on duty, Disabled soldier/Ex-servicemen and Spouses/widow of Ex-servicemen etc. operating the following shops located at places mentioned against each shop:-

Shops at Sekhon Vihar (Sekhon Vihar, Palam, Delhi Cantt-10)

Sl No	Shop Name	*MRP (in ₹)
1.1	Iron Shop-I	333
1.2	Packers and Movers	1750

2. Air Officer Commanding, Air Force Station, New Delhi-110003 invites sealed tenders from War Widows/Widows of Defence personnel killed while on duty, Disabled soldier/Ex-servicemen and Spouses/widow of Ex-servicemen including Govt. agencies & civilians for shops as per details mentioned against each shop:-

Sl No	Shop Name	*MRP (in ₹)
2.1	Shoe Shoppe	2,000

Shops at Air Force Station Naraina, Bar Square, Naraina, New Delhi-10.

Sl No	Shop Name	*MRP (in ₹)
2.1	Provision Shop	833
2.3	Vegetable Shop	300
2.4	Barber Shop	160

Shops at Marut Camp (Race Course Camp) Air Force Station, New Delhi-43.

Sl No	Shop Name	*MRP (in ₹)
2.11	Vegetable Shop	500
2.12	Tailor Shop	500

*Minimum Reserve Price

3. The amount quoted by tenderers should be equal to or more than the above stated Minimum Reserve Price.

4. Details of tendering process is as follows:-

4.1 Sale of Tender Forms (along with T & C of Contract) Start Date : 27 May 2026 (0930 hr) Finish Date : 12 Jun 2026 (1030 hr)

Forms will be available at SI, Race, Air Force Station New Delhi, Office, New Delhi-110003.

4.2 Cost of Tender Form: ₹ 1,000/- to be paid in Cash/PO/MS Machine.

4.3 Bid Security : ₹ 5,000/- (in the form of DD/PO/MS Machine in the favour of OIC SI Funds, AFS New Delhi, payable at Air Force Station, New Delhi, to be submitted along with the Application and Tender Form at the time of submission).

4.5 Last date of submission of Application and Tender Forms: 12 Jun 2026 Mail on address as per 4.1 above or depositing in the tender box available in Main Guard Room at the entry gate of Air Force Station, New Delhi-110003

4.6 Opening of Tenders: 12 Jun 2026 (1130 hr)

5. Priority of allotment:-

5.1 War Widows of defence personnel killed while on duty	5.4 Spouse/Widows of Ex-Servicemen.
5.2 Disabled soldiers	5.5 Civil Govt. Agencies, including public sector undertakings and civilian whose spouse or dependent family members do not own any shop in the Complex/Military Station/Cantonment.
5.3 Ex-Servicemen	

ऋण वसूली अधिकरण सं.-II,
दिल्ली के समक्ष
4थी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पब्लिसिटी स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12
और 13 के साथ पढ़ा जाए, निम्नलिखित मामले में
नोटिस।

OA सं. 544/2024 दिनांक: 29.12.2025
दुग्ध बैंक एन। ...आयदक
बनाम
मेसर्स मानवा इंटरनेशनल ...प्रतिवादी
सेवा में, प्रतिवादी।

डी। मेसर्स मानवा इंटरनेशनल, उनके सहयोगी श्री कमलजी
सिंह और अमित कुमार के माध्यम से, 165 अंश दिल्ली
पुष्पगंज रोड, सेक्टर 20 बुंदेला, नया दिल्ली-110016
के माध्यम से, पुष्पगंज, हरियाणा-122016

डी। श्री कमलजी सिंह, पुत्र श्री नवीर सिंह, नवाना - 55,
फ्लैट-16, सेक्टर 20, रोहिणी, पूर कला, उत्तर
पश्चिम दिल्ली

डी। श्री अमित कुमार, पुत्र श्री दुग्ध दास, ए-278, ग्राउंड
फ्लैट, मधु विहार, उत्तर नया, दिल्ली-59

नैसर्गिक उपरोक्त नामित आवेदक (एम) ने आपके विवर
क. 52,10,417 (पचास लाख साठ हजार सात सौ
सहस्र मात्र) की वसूली के लिए एक मामला दायर किया है
और बुकिंग अधिकरण को यह संबंधित रूप से दिखाया गया
है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस तामील करना
संभव नहीं है, इसलिए यह नोटिस विज्ञापन द्वारा दिया जा रहा है,
जिसमें आपको 04.06.2026 को सुबह 11:00 बजे अधिकरण
के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

ध्यान दें कि उपरोक्त नैसर्गिक दिन आपको अनुपस्थिति में ही
किया जाएगा, मामले की सुनवाई की प्रक्रिया में बैंक और आवेदक
अनुपस्थिति में ही प्रदर्शित किया जाएगा।

सभी मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया में बैंक और आवेदक
रूप से सभी मामलों को सुनवाई के लिए—

(i) सभी अधिकार/वाचकरी को 'Cisco Webex'
एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने होगा।

(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा सूची वाले
मामलों की सुनवाई के मामले में ही सीआरटी, के
आधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर प्रदर्शित
किया जाएगा।

(iii) इसके संबंध में किसी भी आपात स्थिति/आवरणका
में अणिका/वाचकरी संबंधित अधिकारी से फोन नं.
23748478 पर संपर्क कर सकते हैं।

आज दिनांक 29 दिसंबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर और
अधिकरण की मुहर के सहज जारी किया गया।

अधिकरण के आदेशानुसार
अणुगण अधिकारी
श्रीआरटी-11, दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

LEAP BEYOND LIMITS

EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2026

Sr. No.	Particulars	₹ (in Lakh except Shares & EPS)			
		3 Months ended 31st March, 2026	Preceding 3 Months ended 31st December 2025	Corresponding 3 Month ended in the previous year 31st March, 2025	Year ended on 31st March, 2026
		Audited	Unaudited	Audited	Audited
1.	Total income from operations	21,204.53	18,092.11	18,765.93	73,999.11
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	612.76	117.24	889.38	1,482.35
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	627.47	111.87	859.94	1,497.26
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	529.75	59.12	560.69	1,118.94
5.	Total Comprehensive Income for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	533.69	59.12	560.69	1,122.88
6.	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- each)	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	21,674.49
8.	Earnings Per Equity Share (of Rs. 10/- Each) (Not Annualised) (for Continuing and Discontinued operations) (Basic & Diluted)	3.13	0.35	3.29	6.59
	Diluted:	3.13	0.35	3.29	6.59

Note:- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results of the Company for the 4th Quarter and Year ended 31st March, 2026, as filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Quarterly and Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the website of the Company (www.libertyshoes.com)

For and on behalf of
Board of Directors
Shammi Bansal
Whole Time Director /Executive Director
DIN:00138792

Place: New Delhi
Date: Tuesday, 26th May, 2026

LIBERTY

Registered Office: Liberty Puram, 13th Milestone, G.T. Karnal Road, Kutail, Dist. Karnal - 132114, Haryana
Corporate Office: 19th Floor Magnum Global Park, Tower - 2 Golf Course Extension Road, Gurugram-122011, Haryana
E-mail: investorcare@libertyshoes.com, CIN: L19201HR1986PLC033185 | www.libertyshoes.com

राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण
द्वितीय तल, जीवन निधि भवन, अवेकडर सॉकल, जयपुर
क्रमांक: एए.621 35/RSPPA/TENDER/अनुबन्धित संख्या/2026-27/185 दिनांक: 21/05/2026

ई-बोली आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपलब्ध सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित, आवेदक निम्नलिखित, कन्सल्टेंट एवं फार्मासिस्ट की सेवा उपलब्ध करवाने हेतु (अनुमानित प्रति रु. 230 लाख) पंजीकृत बोलोदाता संस्थाओं से ई-बोली (कम्प्यूटरी-आधारित) बोलो व विधायक बोलो) दिनांक 29.05.2026 को अंकांक: 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत ई-बोली आमंत्रण सूचना एवं ई-बोली दस्तावेज वेबसाइट ["http://eproc.rajjasthan.gov.in"](http://eproc.rajjasthan.gov.in) एवं ["http://spp.rajjasthan.gov.in"](http://spp.rajjasthan.gov.in) पर देखे जा सकते हैं।
UBN: DTAA262SLT0B00059

(सोहा सल धनका) निदेशक
राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण

DIPRC/9210/2026

IDBI बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कंक पेरेंड, मुंबई - 400005, फोन: (022)66553406,
सीआईएस: L65190MH2004G148838 ईमेल: idbi@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbi.bank.in

आईडीबीआई बैंक के शेयरधारकों द्वारा ईमेल आईडी, केवाईसी अद्यतन करने और बैंक खाता विवरण को पंजीकरण और वीसी/ओपीएम के माध्यम से वार्षिक महा बैठक के लिए सार्वजनिक घोषणा

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 20 के साथ पठित कंपनी (संरचना) के नियमों 2014, के नियम 35; कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 और एमसीए एवं सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्रों की शर्तों के अनुसार हम, तदनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि जिन्होंने बैंक में अभी तक अपनी ईमेल आईडी(यो) पंजीकृत नहीं किया है, वे अपनी ईमेल-आईडी(यो) पंजीकृत करें ताकि महा बैठकों/पोस्टल बैठक की सूचना, ई-वोटिंग में भाग लेने, वार्षिक रिपोर्ट, लाभार्थी भुगतान की पुष्टि तथा अन्य सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त कर सकें।

2. महा बैठकों के आयोजन के संबंध में एमसीए एवं सेबी द्वारा जारी किए गए सभी पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 22 सितंबर 2025 के एमसीए संख्या 3/2025 के अनुसार बैंक अपनी आगामी वार्षिक महा बैठक (एजीएम) पूर्णतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओपीएम) के माध्यम से करेगा और अपने सभी सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगा।

3. उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए वार्षिक महा बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) / केफिन टेकनोलॉजीज लिमिटेड, बैंक के आरटीए के साथ पंजीकृत हैं और यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://www.idbi.bank.in/> और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी।

4. जिन शेयरधारकों के ईमेल पता बैंक के आरटीए या डीपी में पंजीकृत नहीं है उन्हें एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें वार्षिक रिपोर्ट की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब लिंक और सटीक पाठ दिया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां केवल उन्हीं शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे। वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य कंपनी के ईमेल आईडी idbi@idbi.co.in पर अपना अनुरोध भेजें जिसमें अपना फोनिंग नंबर / डीपी आईडी और व्हाट्सएप आईडी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

5. शेयरधारक जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे idbi@idbi.co.in को अपना फोलियो संख्या / डीपीआईआईडी - व्हाट्सएप आईडी, शेयरधारक का नाम, पैन और आधार कार्ड की तस् - प्रमाणित स्कैन की गई प्रतियां प्रदान कर ई-वोटिंग के लिए पूरक आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद बैंक द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार, पोस्टल बैलट/ महासभा के लिए ई-वोटिंग में भाग ले सकते हैं।

6. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों शेयरधारकों के लाभार्थी सहित निवेशकों को सभी भुगतान आरबीआई द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से करेगी अतः हम ऐसे सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने अभी तक अपना बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं किया है, कि वे उक्त का पंजीकरण/अद्यतन करावें, यह लाभार्थी को सीधे आपके बैंक खाते में प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।

7. दिनांक 06 फरवरी 2026 के सेबी मास्टर परिपत्र सं. एचओ/38/13(4)/2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/आई/4298/2026 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले ऐसे शेयरधारक, जिनकी फोलियो में स्पष्टी खाता संख्या (पैन), संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर अद्यतित नहीं हैं, उपर्युक्त समस्त विवरण पूर्ण रूप से के-फिन टेकनोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं टॉक्सफर एजेंट को उपलब्ध कराने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे फोलियो के संबंध में लाभार्थी के भुगतान के लिए पात्र होंगे।

बैंक खाता विवरण / मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी / पैन / नामांकन के पंजीकरण हेतु, कृपया आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट <https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-investor.aspx> तथा के-फिन की वेबसाइट <https://www.kfintech.com> पर जाएं, यथा लागू (ISR-1, ISR-2, ISR-3 और SH-13 डाउनलोड करें तथा सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत निष्पादित भौतिक दस्तावेजों को निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें- केफिन टेकनोलॉजीज लिमिटेड (इकाई- आईडीबीआई बैंक लि.), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्छीबोली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद- 500 032 (टोल फ्री नंबर- 1800-309-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com)

यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित है, तो आपसे अनुरोध है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करें तथा अपने डिमैट खाते में केवाईसी एवं बैंक खाता विवरण अद्यतित करें।

8. भौतिक शेयरों से संबंधित सभी जोखिमों को समाप्त करने तथा डिमैट धारिता के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयरों को अमूर्त करें।

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि लिमिटेड लाइसिलिटी पार्टनरशिप अभियान, 2008 की धारा 13 के अंतर्गत प्रियाली प्रॉपर्टीज एलएलपी, जिसका LLPIN: AAB-4699 है, के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य से हटियाणा राज्य में स्थानांतरित करने की स्वीकृति हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली-11 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति के हित उक्त LLP के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य से हटियाणा राज्य में स्थानांतरित किए जाने से प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, अपने हित की प्रकृति तथा विरोध के आधारों सहित, शपथ-पत्र द्वारा समर्थित रूप में, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली-11 को प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी एक प्रतिलिपि के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजी जाए - E-34, 2nd Floor, Connaught Circus, New Delhi-110001.

दिनांक: 27.05.2026
स्थान: दिल्ली

प्रियाली प्रॉपर्टीज एलएलपी Sd/-
Designated Partner
DPIN: 00397116

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED
[Corporate Identity Number: L24219DL2006PLC145092]
Registered & Corporate office: G-82, Kirti Nagar, Delhi-110015
Tel: +91-11-42683083; Website: www.sircapaints.com; Email: cs@sircapaints.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE/MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that in continuation to previous SEBI circular, dated July 02, 2025, a special window has been relaunched pursuant to the SEBI Circular No. HO/38/13(11)/2026-MIRSD-POD/ U3750/2026 dated January 30, 2026 for a period of one (1) year from February 05, 2026 till February 04, 2027 to facilitate transfer and dematerialization of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019, and rejected/returned/not attended, due to deficiency in the documents/ processor/ otherwise by furnishing necessary documents and information to the Company's RTA. The securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer.

Re-lodgement of legally valid and complete documents for transfer of physical shares, where there is no dispute on ownership will be considered. Investors may submit their request till February 04, 2027, with the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company.

The Details of Registrar and Transfer Agent (RTA) are as under:
KFin Technologies Limited,
Unit: Sirca Paints India Limited, Selenium Building, Tower B, Plot Nos.31-32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandali, Hyderabad-500032, Email: einward.rs@kfintech.com, mohsin.mohd@kfintech.com

During this period, the securities that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode upon submission of complete and valid documents and subject to verification of the same by RTA/Company. The lodger must have a demat account and provide his/her Client Master List (CML), along with the transfer documents and share certificates, while lodging the documents for transfer with Company's RTA. Due process shall be followed by the RTA for such transfer-cum-demat requests. We reiterate that re-lodgement will be allowed only in those cases where transfer deed for physical shares were lodged before April 01, 2019 and were rejected/returned/not attended due to the deficiency in the documents/processor/otherwise.

By Order of the Board
For Sirca Paints India Limited
Sd/-
Hira Kumar
(Company Secretary cum Compliance Officer)

Date: 26.05.2026
Place: Delhi

पशुपति एफिलॉन लिमिटेड
CIN : L50102UP1982PLC015532
पंजीकृत कार्यालय : काशीपुर रोड, वाकूरुदारा, जिला मोरादाबाद (उ.प्र.)
कॉर्पोरेट कार्यालय : एम-14, कर्नाट सर्कल (मिडिल सर्कल)
नई दिल्ली-110 001, फोन नं. : 91-11-47627400, फैक्स नं. : 91-11-47627497
E-mail : secretariat@pasupatiaylon.com; Website : www.pasupatiaylon.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
		31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026
		परीक्षित	अपरीक्षित	परीक्षित	परीक्षित
1.	परिचालन से कुल आय	246.94	271.55	172.01	1018.83
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर, असाधारण या /और असाधारण मदों से पहले)	35.88	34.89	15.25	94.93
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर, असाधारण या /और असाधारण मदों के बाद)	35.88	34.32	15.25	94.36
4.	अवधि हेतु कर के बाद शुद्ध लाभ (असाधारण या /और असाधारण मदों के बाद)	26.28	25.69	11.27	69.92
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर के बाद) शामिल एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद))	27.66	25.69	11.34	71.29
6.	चुक्रता इंडिक्सी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति)	89.13	89.13	89.13	89.13
7.	अन्य इंडिक्सी (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	346.29
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति)	2.95	2.88	1.26	7.84
	मूल :	2.95	2.88	1.26	7.84
	वितरित :	2.95	2.88	1.26	7.84